

शबरी आदिवासी घरकुल योजनेत ग्रामीण क्षेत्रातील
घरकुलाच्या संदर्भात सुधारणा करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
आदिवासी विकास विभाग,

शासन शुध्दीपत्रक क्र. घरकुल-२०१६/प्र.क्र.३७/का.१७

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२.

दिनांक :- २८ जून, २०१६.

- वाचा :-** १) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.घरकुल-२०१२/प्र.क्र.३८
(भाग-१)/का.१७, दि. २८ मार्च, २०१३.
- २) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.घरकुल-२०१२/प्र.क्र.३८
(भाग-१)/का.१७, दि. ७ ऑगस्ट, २०१४.
- ३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.घरकुल-२०१५/प्र.क्र.२१० /का.१७,
दि. ५ जानेवारी, २०१६.
- ४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्र.इंआयो-२०१५/प्र.क्र.४१३/योजना-१०,
दि. १० फेब्रुवारी, २०१६.
- ५) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. घरकुल-२०१६/प्र.क्र.३७/का.१७,
दि. १५ मार्च, २०१६.

शासन शुध्दीपत्रक :-

वरील वाचा क्र. ५ मधील परिच्छेद क्रमांक एक मधील ओळ क्र. ३ व ४ मधील “यामध्ये दारिद्र्य रेषेवरील लाभार्थ्यांची निवड सामाजिक, आर्थिक, जात, जनगणनेनुसार (SECC) करावी”. हे वाक्य वगळण्यात यावे.

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१६०६२८१२२६४३८८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

(प्रभाकर. बा. गावडे)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- १) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-३५
- २) मा. सभापती, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई.
- ३) मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधान भवन, मुंबई.

- ४) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२
- ५) मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव
- ६) मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव
- ७) सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव
- ८) सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य
- ९) मा. प्रधान सचिव महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई.
- १०) मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- ११) मा. प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक
- १२) प्रधान सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई
- १३) मा. प्रधान सचिव, गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
- १४) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रादेशिक क्षेत्रविकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई.
- १५) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, वांद्रे (पू.) मुंबई.
- १६) सर्व मंत्रालयीन विभाग.
- १७) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर
- १८) अधिदान व लेखा लेखाधिकारी, मुंबई.
- १९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी
- २०) सर्व विभागीय आयुक्त
- २१) सर्व जिल्हाधिकारी
- २२) सर्व महानगरपालिका आयुक्त
- २३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
- २४) आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक
- २५) आयुक्त, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे
- २६) संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
- २७) सर्व प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा.
- २८) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर
- २९) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,
- ३०) सर्व मुख्याधिकारी नगरपालिका/नगरपरिषद
- ३१) राज्य संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई.
- ३२) वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थोपाय,) मंत्रालय, मुंबई.
- ३३) सर्व उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- ३४) सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- ३५) निवड नस्ती-कार्यासन १७.